

# माता-पिता का अधिकार पत्र

अक्षमता वाले किसी बच्चे के माता-पिता के रूप में आपको यह अधिकार प्राप्त हैं:

1. वैयक्तिकृत शिक्षा प्रोग्राम (IEP) मीटिंग्स में उपस्थित रह कर अपने बच्चे के हितों का प्रतिनिधि होना।
2. IEP मीटिंग्स में किसी वकील या विशेषज्ञ को उपस्थित रखना।
3. अपने बच्चे के आकलन की प्रति प्राप्त करना, उससे असहमत होना और सरकारी खर्च पर एक स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन (IEE) की माँग करना।
4. मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बाहरी स्रोतों से एक लिखित रिपोर्ट प्रदान करना।
5. अपने बच्चे से संबंधित सभी शैक्षिक रिकॉर्डों की जाँच करना और IEP की एक प्रति प्रदान की जाना।
6. IEP टीम के निर्णयों से असहमत होना और विवाद के समाधान की प्रक्रियाओं का अनुसरण करना, जिनमें शामिल हैं: एक फैसिलिटेटेड IEP मीटिंग की माँग करना, पूर्वप्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से बच्चे की तरफ से शिकायत दर्ज करना, सरकार द्वारा खर्च उठायी जाने वाली मध्यस्थता की माँग करना, निष्पक्ष ड्यू प्रोसेस सुनवाई प्राप्त करना, और ड्यू प्रोसेस निर्णय के खिलाफ अदालत में अपील करना।
7. IEPओं की समीक्षाओं और IEP के किसी भी पहलु में किसी भी परिवर्तन के निर्णय में हिस्सा लेना और साथ ही अपने बच्चे के शैक्षिक नियोजन या किसी निःशुल्क और उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान में किसी भी परिवर्तन के संबंध में अग्रिम लिखित सूचना पाना।
8. अपने बच्चे को अधिकतम उपयुक्त सीमा तक कम मर्यादित करने वाले परिवेश में और एक सामान्य शिक्षा वर्ग में डलवाना।
9. अगर आप अंग्रेजी में पूरी तरह निपुण न हों, तो प्रभावी संचार प्रदान करने के लिए किसी सहायता की माँग करना।
10. आपके बच्चे के लिए उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा और आपके बच्चे की अनन्य ज़रूरतें, जिनमें विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं, जैसे कि सहायक टेक्नोलॉजी डिवाइसिस और सेवाएं, परिवहन, स्पीच पैथोलॉजी सेवाएं, ऑडियोलॉजी सेवाएं, दुभाषिया सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, जिसमें व्यावहारिक हस्तक्षेप शामिल हैं, फिज़िकल थैरापी, ऑक्युपेशनल थैरापी, मनोरंजन, जिसमें उपचारात्मक मनोरंजन, परामर्श सेवाएं, जिसमें पुनर्वसन परामर्श, दिक्विन्यास और गतिविधि संबंधी सेवाएं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल नर्स सेवाएं, सोशल वर्क सेवाएं, मातापिता के लिए परामर्श और परामर्श, और नैदानिक या मूल्यांकन सेवाओं के लिए चिकित्सकीय सेवाएं शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, पूरी करने के लिए बनाया गया एक IEP।
11. संघीय Individuals with Disabilities Education Act (अक्षमता वाले व्यक्तियों की शिक्षा कानून - IDEA) या संघीय Rehabilitation Act of 1973 (1973 का पुनर्वसन कानून) के खंड 504 के तहत किसी भी मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग करना।